



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2011/चैत्र 28, 1933

No. 209]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2011/CHAITRA 28, 1933

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2011

सं.का.नि. 325(अ).—राजनयिक एवं कौंसुलर अधिकारी (शपथ और शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41), की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा राजनयिक एवं कौंसुलर अधिकारी (शुल्क), नियमावली, 1949 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों को राजनयिक एवं कौंसुलर अधिकारी (शुल्क) संशोधन नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
- (ख) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (ग) ये अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, अंगोला, एंगुला, एट्रुआ और बरबुडा, अर्जेंटिना, अर्मेनिया, अरूबा, आस्ट्रिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्लिजम, बेलिज, बेनिन, भूटान, बोलिविया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, ब्रुनेई, दारुसलाम, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कम्बोडिया, कैमरून, केप वर्डे द्वीप, कैमैन द्वीप, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चैड, चीली, चीन, कोलम्बिया, कोमोरोस, कॉंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कॉंगो गणराज्य, कुक द्वीप, कोस्टा रीका, क्रोशिया, क्यूबा, साइप्रस, चैक गणराज्य, डेनमार्क, जिबुती, डोमिनिका (राष्ट्रमण्डल), डोमिनिकन, गणराज्य, इक्वेडोर, अल सेल्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनीया, ईरीट्रिया, एस्टोनिया, इथोपिया, फिनलैंड, गेबन, गाम्बिया, जार्जिया, घाना, ग्रीस, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनीया, गिनीया बिसाऊ, हैती, होली सी, हॉन्डुरस, हंगरी, हांग कांग, आइसलैंड, ईरान, आयरलैंड, आइवरी कोस्ट, जापान, कजाकिस्तान, किरीबाती, कोरिया (डीपीआर), कोरिया (गणराज्य), किर्गीस्तान, लाओ (पीडीआर), लातविया, लेसोथो, लाइबेरिया, लिस्तेनस्टिन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग,

मेसेडोनिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, माल्टा, मार्शल आइलैंड (गणराज्य), मॉरीतानिया, मैक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोल्दोवा, मंगोलिया, मॉन्टेसेरत, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमा, नामीबिया, नैरू, नेपाल, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, नार्वे, पाकिस्तान, पलाऊ (गणराज्य), फिलीस्तीन, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, परागुए, पेरू, पोलैंड, रोमानिया, रूसी परिसंच, र्वांडा, समोआ, सैन मारिनो, साओ टोम और प्रिंसाइप (गणराज्य), सेनेगल, सर्बिया व मॉन्टेनेग्रो, सेशल्स, सियरा लियोन, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, सोलोमन द्वीप, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइन्स, स्वाजीलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, टोगो, टोंगा, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, तुर्क और कैसोस द्वीप, तुवालु, युगांडा, यूक्रेन, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान, वानुआतु, वेनेजुएला, वियतनाम, जाम्बिया, जिम्बाब्वे स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों/केन्द्रों पर लागू होंगे।

2. राजनयिक व कौंसुलर अधिकारी (शुल्क) नियमावली, 1949 में अनुसूची-I के लिए धारा 11 के रूप में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :—

जिन मामलों में अतिरिक्त शुल्क प्रधारित किया जाना है	शुल्क मान (रुपए में) स्थानीय मुद्रा में पूर्णांक निर्धारित किए जाए
11. (i) पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई, तथा पीआईओ कार्ड	100 रुपए प्रति दस्तावेज
(ii) रोजगार दस्तावेज का सत्यापन	100 रुपए प्रति कर्मचारी
(iii) अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तथा अन्य विविध कौंसुलर सेवाओं (मृत्यु संबंधी मामलों के अलावा) का सत्यापन	100 रुपए प्रति कर्मचारी

[फा. सं. टी-234/2/2007-बोल-III]

पी. एम. मीना, संयुक्त सचिव (कौंसुलर)

टिप्पणी : प्रमुख नियम दिनांक 8 नवम्बर, 1949 की अधिसूचना संख्या 420-कोन. के अनुसार प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे:—

- (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1977, दिनांक 14-11-1967
- (ii) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 13-10-1976
- (iii) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 2-4-1979
- (iv) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 862(अ), दिनांक 1-11-1985
- (v) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 688(अ), दिनांक 15-10-1993
- (vi) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 18-11-1993
- (vii) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 912(अ), दिनांक 20-12-2001
- (viii) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 28-3-2007
- (ix) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 541(अ), दिनांक 9-8-2007
- (x) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752(अ), दिनांक 15-10-2009
- (xi) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398(अ), दिनांक 12-5-2010
- (xii) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 254(अ), दिनांक 23-3-2011.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2011

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Diplomatic and Consular Officer (Fees) Rules, 1949, namely:—

1. (a) These rules may be called the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Amendment Rules, 2011.
- (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (c) These will be applied to Indian Diplomatic Missions/Posts in Albania, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde Islands, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, Cook Island, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica (Commonwealth of), Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finland, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Hong Kong, Iceland, Iran, Ireland, Ivory Coast, Japan,

Kazakhstan, Kiribati, Korea (DPR), Korea (Republic of), Kyrgyzstan, Lao (PDR), Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Marshall Islands (Republic of), Mauritania, Mexico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montserrat, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, Palau (Republic of), Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe (Republic of), Senegal, Serbia & Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Slovak Republic, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, Spain, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Togo, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Turks & Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

2. In the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949, for Schedule-I the following shall be added as clause 11:—

Matter in respect of which an additional fee is leviable in	Scale of fee (in Rs.) Rounded off in local currency
11. (i) Passport, Visa, OCI and PIO cards	Rs. 100 per document
(ii) Attestation of employment document	Rs. 100 per worker
(iii) Attestation of other documents and other Misc. consular services (other than in death cases)	Rs. 100 per worker

[F.No. T-234/2/2007-Vol-III]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)

Note : Principal rules published *vide* Notification No. 420-Con., dated 8th November, 1949 and subsequently amended by:—

- (i) Notification No. G.S.R. 1977, dated 14-11-1967
- (ii) Notification No. G.S.R. 817(E), dated 13-10-1976
- (iii) Notification No. G.S.R. 326(E), dated 2-4-1979
- (iv) Notification No. G.S.R. 862(E), dated 1-11-1985
- (v) Notification No. G.S.R. 688(E), dated 15-10-1993
- (vi) Notification No. G.S.R. 712(E), dated 18-11-1993
- (vii) Notification No. G.S.R. 912(E), dated 20-12-2001
- (viii) Notification No. G.S.R. 256(E), dated 28-3-2007
- (ix) Notification No. G.S.R. 541(E), dated 9-8-2007
- (x) Notification No. G.S.R. 752(E), dated 15-10-2009
- (xi) Notification No. G.S.R. 398(E), dated 12-5-2010
- (xii) Notification No. G.S.R. 254(E), dated 23-3-2011